



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन 1945 (श0)  
(सं0 पटना 290) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2024

---

सं० 08/नि0था0-11-01/2022 सा0प्र0-583  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

9 जनवरी 2024

श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-456/2019, तत्कालीन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति के मामले में PC Act 1988 (संशोधित सहित) 13(1)(b) r/w-13(2) r/w-12 एवं IPC की धारा 120(B) के तहत प्राथमिकी संख्या-08/22 दिनांक 26.05.2022 दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10392 दिनांक 24.06.2022 द्वारा श्री भारती को निलंबित किया गया।

आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 20832 दिनांक 09.11.2023 द्वारा श्री भारती के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री भारती के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री भारती के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं न्यायिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री भारती को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-456/2019, तत्कालीन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से

निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री भारती के निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के बाद ली जायेगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 290-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>